

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने रक्षित पूंजी के रिकॉर्ड योगदान और लगातार दूसरे वर्ष बिना टैक्स वृद्धि के साथ 2020 बजट मंजूर किया

सेवाओं में वृद्धि करते हुए, भविष्य के लिए तैयारी करते हुए: समुदाय को सबसे अधिक प्राथमिकता देना

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 फरवरी, 2020) – आज काउंसिल की विशेष मीटिंग में, काउंसिल द्वारा सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का 2020 का बजट सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

यह इस टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) का लगातार दूसरा वर्ष है, जब इसने सिटी के बजट में फंड के लिए 0% प्रापर्टी टैक्स वृद्धि प्रदान की है।

यह बजट सुनिश्चित करता है कि सिटी के प्रोग्राम और सेवा स्तर पहले की तरह कायम रखे गए हैं या इनमें वृद्धि की गई है; लगाए गए टैक्सों ने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार स्थिर स्तरों पर रखा है; और यह कि निवेश लगातार आर्थिक वृद्धि और नौकरियां पैदा करने के अवसरों में वृद्धि कर रहे हैं।

आंकड़ों के मुताबिक

- मंजूर किए गए 2020 बजट के परिणामस्वरूप टैक्स बिल के सिटी के हिस्से पर 0% प्रापर्टी टैक्स ही रखा गया है।
- 2020 के टैक्स बिलों में क्या होगा? सिटी का 0.0% + रीजन का 1.3% + स्कूल बोर्ड्स 0% = 1.3% (औसतन प्रति परिवार के लिए \$64)
- सिटी के कुल संचालन खर्चों में \$47 मिलियन तक की वृद्धि की जा रही है। इसके लिए फंड मूल्यांकन वृद्धि, मालगुजारी आमदन वृद्धि और तूफान के पानी की फीस से आएगा।
- 2020 बजट \$977M का बजट है। इसमें \$755M का संचालन बजट (स्टाफ के वेतन, रखरखाव, ज़रूरी उपयोग की सेवाएं, रक्षित पूंजी) और \$222M पूंजी बजट (खरीद, मरम्मत के बड़े कार्य और संपत्तियों: सड़कों, बिल्डिंगों आदि की रिप्लेसमेंट) शामिल है।
- सिटी के बजट में सिटी में रक्षित पूंजी के लिए \$110M का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक योगदान शामिल है, जो सिटी की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाता है।
- 2020 के बजट में बसों, सड़कों और अन्य सुविधाओं को बढ़िया चालू स्थिति में रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिटी का निर्माण निरंतर जारी रखा जा सकता है, ट्रांज़िट के लिए लगाया गया 1% टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया गया 2% टैक्स शामिल है।

हमारी सिटी का निर्माण करना – पूंजी बजट की झलकियां

- आठ इलेक्ट्रिक बसों सहित बसों की खरीद के लिए \$52M
- सड़कों और क्रियाशील यातायात के लिए \$41M की वृद्धि
- स्पोर्ट्स फील्ड्स, ट्रेल्स और खेल के मैदानों को सुधारने के लिए तीन वर्षों में \$9.8M
- सेंचुरी गार्डन्स (Century Gardens) और साउथ फ्लेचर्स रेक्रिएशन सेंटर्स (South Fletcher's Recreation Centres) में जो नए यूथ सेंटर्स (Youth Centres) के लिए \$2M
- सामुदायिक सुरक्षा ज़ोन्स में फोटो रडार के लिए तीन वर्षों में \$650,000

समुदाय की मदद से

सिटी ने 2020 बजट के बारे में, ईमेल, फोन और टेलिफोन टाउन हॉल के माध्यम से लोगों को अपनी राय देने के कई अवसर दिए थे और लगभग 7,500 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था।

सिटी ने हर प्रकार के निवासियों, संगठनों और स्टैकहोल्डर्स से भी राय ली थी, जिन्होंने बजट कमेटी (Budget Committee) में प्रतिनिधित्व किया था।

बजट के बारे में और विवरणों के लिए, सिटी की वेबसाइट www.brampton.ca/budget पर जाएं।

हवाले

“काउंसिल ने 2020 बजट मंजूर किया है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रैम्पटन, लगातार दो वर्षों तक टैक्स में कोई वृद्धि न करने वाला कैनेडा का एकमात्र बड़ा शहर बन गया है। बजट में बढ़ते शहर की जरूरतों को लगातार पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट में टैक्सों द्वारा मुख्य निवेश किए हैं। मंजूर किए गए बजट में, सिटी के इतिहास की रक्षित पूंजी का अब तक का सबसे बड़ा योगदान शामिल है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; चेयर, बजट कमेटी

“हमारी 2020 बजट प्रक्रिया एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण थी। बजट प्रक्रिया में 7,500 निवासियों ने हिस्सा लिया था और कई निवासियों ने बजट कमेटी के प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी राय दी थी। हमारी काउंसिल को इस परिणाम पर गर्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सिटी अब और भविष्य में हमारे टैक्सपेयर्स के मूल्य में वृद्धि कर रही है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वाइर्स 1 व 5; वाइस-चेयर, बजट कमेटी

“मंजूर किया 2020 बजट, टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज के मुताबिक कार्यनीति वाले निवेश प्रदान करने पर केंद्रित है। मैं स्टाफ की सूझबूझ के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह जिम्मेदार बजट, आने वाले कल की तैयारी करते हुए, आज टैक्सपेयर्स के लिए सम्मान दर्शाकर हमारे निवासियों के लिए उच्च-किस्म की सेवाएं प्रदान करने में वृद्धि करता है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca